





## वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान

# कोविड-19 से लड़ें, काम से समझौता ना करें

## एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाएं, कोविड-19 को हराएं



**1** एक दूसरे से कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें



**2** जिन व्यक्तियों को बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो, उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखें



**3** कोविड-19 के जरा से भी लक्षण दिखने पर अपनी जांच करवाएं और दूसरों से अलग रहें

**RuPay**

**4** नकद लेन-देन की बजाए सरकारी माध्यम जैसे रुपये का प्रयोग करें

यदि किसी को बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की

**24x7 हेल्पलाइन नंबर: 011-23978046 | टोल फ्री नंबर: 1075 पर संपर्क करें**

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त डिजिटल सामग्री के अनुसार